



MOREPEN



Date: 07/08/2023

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051
Symbol: MOREPENLAB

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001
Scrip Code: 500288

Subject: Newspaper Advertisements – Extracts of financial results for the quarter ended 30th June 2023

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, *as amended*, the extracts of consolidated & standalone financial results of the company for the quarter ended 30th June 2023, approved by the Board of Directors on 5th August 2023, are published in the following newspapers:

- i. Financial Express (English) dated 6th August 2023
- ii. Jansatta (Hindi) dated 6th August 2023

The copy of newspaper advertisements are attached herewith and also being made available on the website of the company at www.morepen.com

Kindly acknowledge the receipt and take it on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Morepen Laboratories Limited

Vipul Kumar Srivastava
Company Secretary

Encl.: As above

Morepen Laboratories Limited

CIN No: L24231 HP1984PLC006028

Corp. Off.: 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector 20, Gurugram, Haryana-122016, INDIA
Tel.: +91 124 4892000, E-mail: corporate@morepen.com, Website: www.morepen.com

Regd. Off.: Morepen Village, Malkumajra, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan (H.P.) -173205, INDIA
Tel.: +91-1795-266401-03, 244590, Fax: +91-1795-244591, E-mail: plants@morepen.com

• GLOBAL GENERICS • DIAGNOSTICS • FORMULATIONS • SELF HEALTH PRODUCTS



MOREPEN LABORATORIES LIMITED

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Office : Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173205
Tel: +91-1795-266401-03, 244590, Fax: +91-1795-244591

Corp. Office : 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector 20, Gurugram, Haryana-122016
Website: www.morepen.com, E-mail: investors@morepen.com

Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results For the Quarter Ended 30th June, 2023

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	40103.62	36368.52	30240.17	141753.00
	Profit before Tax	2051.18	1114.06	830.72	5575.53
	Net Profit after Tax	1463.29	824.15	562.99	3867.55
	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)}	1564.58	721.39	633.50	3719.49
	Paid-up Equity Share Capital of Face Value of ₹2/- each	10222.71	10222.71	9982.71	10222.71
	Other Equity	-	-	-	65068.10
	Earning Per Share (in ₹)				
	- Basic	0.29	0.16	0.12	0.77
	- Diluted	0.29	0.16	0.11	0.77

Note:-
A The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange's websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.morepen.com.
B Additional Information on Standalone financial results is as follows:-

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			
		30.06.2023		31.03.2023	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	36910.29	33652.41	27439.74	133888.33
	Profit for the period before Tax	2171.23	1294.17	955.35	6304.21
	Net Profit for the period after Tax	1585.00	1027.58	687.62	4624.29
	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)}	1694.43	929.51	754.36	4479.51

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Sushil Suri)

Place : Gurugram, Haryana

Date : August 05, 2023

Chairman & Managing Director

Note - Shareholders are requested to register their Email ID at investors@morepen.com or info@massserv.com or www.morepen.com for quick correspondence.

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

REGD. OFFICE: "RADHIKA", 2ND FLOOR, LAW GARDEN ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJARAT, Pin Code: 380009. BRANCH OFFICE: Tajpuria Palace Above Kajaria Tiles, Near Kukral Pulli, Beside Zarieta showroom, Shakti Nagar, Falzabad Road, Lucknow-226016

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

You The Below Mentioned Borrower, Co-borrowers And Guarantors Have Avail Loan(s) Financial Facility(ies) From Hdb Financial Services Limited By Mortgaging Your Immovable Properties (Securities) And Defaulted In Repayment Of The Same. Consequent To Your Defaults Your Loan Was Classified As Non-performing Asset. Subsequently, The Company Has Issued Demand Notice Under Section 13(2) Of The Securitization And Reconstruction Of Financial Asset And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (The Act), The Contents Of Which Are Being Published Herein As Per Section 13(2) Of The Act Read With Rule 3(1) Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 As And By Way Of Alternate Service Upon You. Details Of The Borrowers, Co-borrowers, Loan Account No., Loan Amount, Demand Notice Under Section 13(2) Date, Amount Claimed In The Notice, Npa Date And Securities Are Given As Under:

1. Name Of The Borrower & Co-borrowers: Omr India Outsources Private Limited - 2nd Floor, C-115 - EPIP Industrial Estate Uppdi; Sikandra Agra Yamuna Bridge-282006 Uttar Pradesh And Also: Plot No. c-115 Admesing 600.00 Sq. Mtr. Industrial Area At EPIP, Mauza Lakhanpur Tehsil & District Agra Yamuna Bridge-282006 - Swarna Gupta - H.No 10-a Old Vijay Nagar Colony Agra Belangary-282004 Uttar Pradesh - Rishi Gupta - H.No 10-a Old Vijay Nagar Colony Agra Belangary-282004 Uttar Pradesh.; Loan Account No. 1393807/6880261 - Loan Amount: Rs.2150000/- (Rupees Twenty One Lakh Fifty Five Thousand Only) By Loan Account Number 1393807 And To The Tune Of Rs.11350000/- (Rupees One Crore Thirteen Lakh Fifty Thousand Only) By Loan Account Number 6880261; Demand Notice Date: 28.07.2023 - Amount Claimed: Rs. 10809715.55/- (Rupees One Crore Eight Lakh Nine Thousand Seven Hundred Fifteen And Paise Five Five Only) As Of 27.07.2023 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses, Cost And Charges Etc.; Npa Date: 05.05.2023; Details Of Security: All The Piece And Parcel Of Property Bearing Plot No C-115 Admesing 600.00 Sq Mtrs, Industrial Area At EPIP, Mauza Lakhanpur, Tehsil & District Agra, Property Boundries: North: Park, South: 18 M Wide Road, East: Plot No C-114, West: Plot No C-116

2. Name Of The Borrower & Co-borrowers: Ravinder Singh S Chaudhary - Hn-184/1b New No-812 Shivaji Nagar, Narayan Bagh Road Jhansi-284002 - Also Is At: A Hn 184/1-b-45 At Mohalla Dadiyapura, Jhansi Measuring 297.39 Sqmt New 812 - Narayan Bag Rd Jhansi-284001 - Jyotsna Suraj Chaudhary - D/1/14 Navyayuk Society, Behind Sault Supt Office Bhandup East Mumbai-400042 - Sanjay Choudhary - D/1/14 Smt Navyayuk Society, Behind Sault Supt Office Bhandup East, Mumbai-400042 - Suraj Brijaji Chaudhary - H-n-184/1 Udaypur Dadiyapura Jhansi-284001; Loan Account No. 2273841/2437668 - Loan Amount: Rs. 3700000 (Rupees Thirty Seven Lakhs Only) By Loan Account Number 2273841 And To The Tune Of Rs. 500000 (Rupees Five Lakhs Only) By Loan Account Number 2437668; Demand Notice Date: 28.07.2023 - Amount Claimed: Rs.3572552.87/- (Rupees Thirty Five Lakhs Seventy Two Thousand Five Hundred Fifty Two And Paise Eighty Seven Only) As Of 27.07.2023 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses, Cost And Charges Etc.; Npa Date: 02.06.2023; Details Of Security: All The Piece And Parcel Of Property - House No 184/1-b-45, Measuring 297.39 Sq.mt., New 812, Narayan Bag Road, Mohalla Dadiyapura, Jhansi-284001, Uttar Pradesh Property Boundries North: Plot Of Azim, South: 4.57 M Wide Road, East: Other's Property, West: 4.57m Wide Road

You The Borrower/ Co-borrowers And Guarantors Are Therefore Called Upon To Make Payment Of The Above Mentioned Demanded Amount With Further Interest As Mentioned Hereinabove In Full Within 60 Days Of This Notice Failing Which The Undersigned Shall Be Constrained To Take Action Under The Act To Enforce The Above-mentioned Securities.

(Borrower's Attention Is Invited To Provisions Of Sub-section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available, To Redeem The Secured Assets.)
Please Note That As Per Section 13(13) Of The Said Act, You Are Restrained From Transferring The Above-referred Securities By Way Of Sale, Lease Or Otherwise Without Our Consent And Any Non Compliance Of Section 13(13) Of The Act Is Punishable Under Section 29 Of The Said Act.
For Any Query Please Contact Mr. Kishu Kapoor Phone: 9638076150- Vikas Anand - 9711010384
Date: 06.08.2023 Place: Uttar Pradesh Sd/-Authorized Officer, FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH, (DRT-2)

1st Floor, SCO 33-34-35, Sector 17-A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/471/2019
Summons under Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 19514

ANDHRA BANK VS PARMOD AGGARWAL
To, 1) Parmod Aggarwal, R/o House No. 3802, Maloya Colony, Chandigarh.

SUMMONS
Whereas OA/471/2019 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 31.07.2023.

Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 20,94,653.30 (application along with copies of documents etc. annexed) In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-

- To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted ;.
- To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application.
- You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
- You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.
- You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 24.11.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 01.08.2023.

यूनियन बैंक Union Bank of India Regional Office : SCO 64-65, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh, Telephone No. 0172-2779226 E-AUCTION SALE NOTICE

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties
Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular by the Authorized Officer, that the under mentioned property mortgaged to Union Bank of India, taken possession under the provision of Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, will be sold by E-Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and costs etc., as detailed below.
The property is being sold on "AS IS WHERE IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities.

The under mentioned property/ies will be sold by "Online E-Auction through website www.mstcecommerce.com, on 24.08.2023 from 11.00 AM to 04.00 PM.

*Minimum bid incremental value for each bid is Rs. 10,000/- or in multiple thereof.,
*Any encumbrances over the property/ies is not known to the Bank/Secured Creditor.

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
1.	Branch Office: Sector 7C Chandigarh Tel. No. 0172-2790733	Mr. Brij Mohan	30.06.2022 Rs. 10,30,002.14	Rs. 10,00,000/- Rs. 1,00,000/-

Details of the Property to be sold Land and Building belongs to Brij Mohan vide Sale deed no. 1984 dated 28.06.2016 and GPA Holder Vide Sr. No. 621 dated 02.04.2017 measuring 0 Bigha Biswa 6 Biswas comprising under Khewat / Khatua No. 186/210, Khasra No. 30/16/2 (5-18), 7(8-0), 14(7-12), 15(7-12) being 5/1164 share out of land 29 Bigha 2 Biswa situated at H. No. 203, Mouta Jhampur, Tehsil, Distt. SAS Nagar. Bounded by: North: H. No. 203 of Mr. Mahipal, South: H. No. 201 of Mr. Gian Chand, East: Rasta, West: Vacant Plot of Sh. Sukhdev Singh. (Type of Possession : Symbolic Possession).

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
2.	Branch Office: Naraingarh, Ph. No. 94679-45787	M/s. Home Traders, Village Kohra Bhura, Tehsil Naraingarh, District Ambala (HR) - 134203. 2. Inder Singh S/o Parminder Singh, R/o Village Tipra, Tehsil Kaika, District Panchkula (HR)- 133302. 3. Gurmali Kaur W/o Parminder Singh, R/o Village Tipra, Tehsil Kaika, District Panchkulia (HR)- 133302.	04.01.2023 Rs. 16,80,818.78	Rs. 13,80,000/- Rs. 1,38,000/-

Details of the Property to be sold All that part of the property consisting of Building on Plot earing part of Khasra No. 72/21/2, 73/27, 73/17 min, 24 min, 80/1/1 min 79/5 min, 73/25 min, 79/5min 73/25 min 79/5 min, 73/24 Area 00K-14M situated at Rakha Village Kohra Bhura, H.B.No. 78, Near, Naraingarh Raipur Rani Road, District Ambala, in the name of Smt. Gurmali Kaur W/o Parminder Singh R/o Vill Tipra, Tehsil Kaika, District Panchkula and bounded by: On the North: Property of Satish Kumar, On the South: Property of Other Owner, On the East: Property of Arjun, On the West: Gohar. CERSAI ID 200065978381. (Type of Possession : Symbolic Possession).

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
3.	Branch Office: Sector 33-D, Chandigarh Tel. No. 0172-2611286	Mr. Krishan Kumar	31.12.2019 Rs. 13,00,765.40	Rs. 9,00,000/- Rs. 90,000/-

Details of the Properties to be sold Residential Plot No. 50, measuring 900 sq. feet at Survey No. Kh/Khat No. 141/144 Khasra 322(3-1), 324/2 (3-18), Hadbast No. 188, Dream Homes, Near Guru Nanak Colony, Badala Road, Kharar, Distt. SAS Nagar, owned by Smt. Renuka W/o Sh. Krishan Kumar and Sh. Krishan Kumar S/o Sh. Jiwash Jha. Boundaries: North: Plot No. 51, South: Plot No. 49, East: Other Owner, West: Rasta. (Type of Possession : Physical Possession).

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
4.	B/O Naraingarh Tel. No. 94679-45787	M/s Narinder Rice Sheller	07.12.2015 Rs. 12,60,000/-	Rs. 10,50,000/- Rs. 1,05,000/-

Details of the Property to be sold HB No. 445, Khewat 234/3, Khasra No. 17/9 Min (5-0), 12(8-0), 17/10(8-0), 16/17/11/2(2-18), 16/16(8-0), 17/9 Min (3-0) Land area 34K 18M of 1/4 th share out of which 38/698 share i.e. 1K-16M situated in Village Sultanpur within the registration Sub-District: Jagadhari, Distt. Yamuna Nagar, Property bounded as follows, On the North: Agricultural Land, On the South: Road, East: Atta Chakkii, On the West: Gohar (Type of Possession : Symbolic Possession).

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
5.	B/O Naraingarh Tel. No. 94679-45787	Neeraj Kumar	23.12.2016 Rs. 13,30,803/-	Rs. 11,40,000/- Rs. 1,14,000/-

Details of the Property to be sold Residential Plot No. 3 in Khata Khatouni No. 1985/2451, Khasra No. 77/1/7.2.2.9/1.7B/5, khasra/Khatouni No. 1421/1812, Khasra No. 77/1/2.3/1. VPO Barara Distt : Ambala, and bounded by: On the North: House of Bhola, On the South: Road, East: House of Poonam Rani, On the West: Plot of other Owner (Type of Possession : Symbolic Possession).

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
6.	B/O Naraingarh Tel. No. 94679-45787	Mr. Pawan Kumar	31.05.2017 Rs. 8,78,973.50	Rs. 9,00,000/- Rs. 90,000/-

Details of the Property to be sold Residential property in Khewat 210, Khatouni 221, Khasra No. 13/2/12(2-0) of 1/40 share i.e. land measuring 01 Marla, Khewat 296, Khatouni 312, Khasra No. 13/2/2(0-9) of 4/9 share i.e. land measuring 04 Marla Total area 05 Marla situated at Village Akbarpur, Hadbast No. 305, Tehsil Naraingarh, Distt. Ambala, Haryana as per regd sale deed no. 2846/1 dated 17.11.2015 in the name of Ms. Pushpa Devi W/o Sh. Milkhi Raj and bounded by: On the North: Gali 10ft wide, On the South: Plot of Volga Cirstofer, East: Plot of other Owner On the West: Plot of other Owner (Type of Possession : Symbolic Possession).

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
7.	B/O Sadar Bazar, Ambala Cantt. Tel. No. 0171-2641943	M/s Shree Krishna Trading Agency	12-10-2022 Rs. 16,95,672.20	Rs. 20,00,000/- Rs. 2,00,000/-

(PROPRIETOR) 16/246, Near Jaimaa Market, Baldev Nagar, Ambala Haryana-134007. Mrs. Sheenam W/o Kuldeep Sharma (GUARANTOR), 16/246, Barnala Road, Jai Maa Market, Ambala City Haryana-134007. MR. GAURAV KUMAR (GUARANTOR), S/o MR. RAM MOHAN KUMAR, 94/1497, Ward No 2 Baldev Nagar, Ambala Haryana-134007.

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
8.	DHANAS Tel. 0172-26060801	Sunil Kumar	11.04.2022 Rs. 9,79,303.55/-	Rs. 9,10,000/- Rs. 91,000/-

Details of the Property to be sold Security : Residential House belonging to Mr. Sunil S/o Gian Chand (Owner of the Property), addressed as House No. 44, Shiv City, Behlohpur Comprised in khata No. 353/347/385 khasra No. 260(4-0) msg. 4 bighas share 1/80 i.e. 1 Biswas in Village Behlohpur, Distt- SAS Nagar and bounded as under (as per title deed) East: Street, West: land belonging to Saini, North: Vacant plot, South: H/o Bobi (Type of Possession : Symbolic Possession)

Sr. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price
9.	DHANAS Tel. 0172-26060801	Mr. Virender Singh Pundir	20.04.2021 Rs. 13,71,661.21	Rs. 14,00,000/- Rs. 1,40,000/-

Details of the Property to be sold Residential House Belonging to Mr. Virender Singh Pundir (Owner of the Property), situated At Shiv City Behlohpur Colony Near Gurudwara Behlohpur Tehsil Kharar Distt. SAS Nagar, Measuring 75 Sq Yard Area Comprised In Khewat No 353/347/385 Khasra No. 260(4-0) S3/160 Share Rakha 1 Biswa 10 Biswas Village Behlohpur Hadbast No 23 Tehsil and Distt. Mohali, and Bounded By : East -House of Shri Ratan Singh, West- 20 Feet Wide Proposed Valley, North- Land of Sangram Singh, South- Land Of Shri Karanpal. (Type of Possession : Symbolic Possession).

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Secured Creditor's website i.e. www.unionbankofindia.co.in and website: www.mstcecommerce.com. In case of problem related to EMD transfer/EMD refund or any issue related to Finance & account, bidders can directly contact the help desk nos. 033-22901004/ 033-22895064 or write email to bbark@mstcindia.co.in, shemram@mstcindia.co.in. The contact details are also provided in the help desk menu of the login page of the link: <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi>. For Registration and Login and Bidding Rules visit <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6)/RULE 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002
This may also be treated as notice u/r 8(6)/Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

DATE: 05.08.2023 PLACE : Chandigarh AUTHORIZED OFFICER, UNION BANK OF INDIA Chandigarh

punjab national bank Together for the better
CIRCLE SASTRA BATHINDA Plot No 445, Phase -III, Model Town, Bathinda

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against the account calling upon the respective borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice, date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property(ies) described here below in Exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of said ACT read with Rule 8&9 of the said Rules on the date mentioned against each account.

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property(ies) and dealing with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank, for the amount and interest thereon.

The Borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Name of the Branch/ Borrower(s)/Guarantor	Description of the Property Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
Bio : Bathinda ZP (102610)				
Borrower(s) : 1. Sh. Jaswinder Singh S/o Sh. Gurtej Singh # MCB-Z-7-08553, Street No. 33, Petian Wali Gali, Lal Singh B a s t i (N a r u n a R o a d) Bathinda 151001, Punjab.	All part & parcel of residential house measuring 150 sq. yards i.e. 3 Biswas, 1/2 Sq. yards i.e. 2 83/638 Biswas, 3/1914 share of land measuring 67 Bigha 19 Biswas, Comprised in Khasra No. 4281 min (0-4), 4301/17(3-1), 5725/4301/27 (1-4), 5726/4301/27 (1-5), 4301/30 (1-12), 4363 (20-4), 4364 (26-15), 4365 (13-14), Khewat/ khatouni No.2842/14104, 14105 and land measuring 43.1/2 Sq. Yards i.e. 0.555/638 Biswas which is 3/1914 share of land measuring 27 Bigha 15 Biswas comprised in khasra No. 4301/34(1-2), 4301 /35(2-4), 4356 (20-14), 4357(3-15), khewat/ Khatouni No. 1571/8257 as per jamabandi for the year 2012-13, Situated at # MCB -Z-7-08553, Street No. 33, Petian Wali Gali, Lal Singh Basti(Naruna Road) Bathinda. Standing in the name of Jaswinder Singh S/o Gurtej Singh, Acquired vide RTD No. 2019-20/23/1/9466 dated 30-01-2020. Bounded as under :- East : 75' Anil Bharti, West : 75' Jaswinder Singh, North : 18' Street 30' Wide, South : 18' Gaushalia Area.	24.05.2023	02.08.2023	Rs.17,86,752.76/- (Rupees Seventeen Lacs Eighty Six Thousand Seven Hundred Fifty Two & Paise Seventy Six Only) with further interest and other charges w.e.f. 30.04.2023 (Less recovery if any).

Date : 05.08.2023 Place : Bathinda Authorized Officer

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH, (DRT-2)

1st Floor, SCO 33-3

